

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 323 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2014—श्रावण 6, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2014

क्र. 4333-198-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28 जुलाई, 2014 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१४

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक- ६ ) अधिनियम, २०१४

[ दिनांक २८ जुलाई, २०१४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ जुलाई, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित की गईं ]

वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) अधिनियम, २०१४ है.

वित्तीय वर्ष २०१४-१५ के लिये राज्य की संचित निधि में से रु. १२,९०,०१,००,८२,००० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१४ (क्रमांक ८ सन् २०१४) की अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए, रुपये एक लाख उन्तीस हजार एक करोड़ बयासी हजार होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१४-२०१५ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिये प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

( आंकड़े रुपयों में )

(१) अनुदान संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	६९,२९,४७,५७,०००	६९,२९,४७,५७,०००
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	०	९१,७६,९९,९६,०००	९१,७६,९९,९६,०००
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	५,४४,१८,३०,०००	३४,८७,४१,०००	५,७९,०५,७१,०००
		पूंजी	६१,८७,०९,०००	०	६१,८७,०९,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	३०,८६,७४,०००	१०,६१,०००	३०,९७,३५,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०३.	पुलिस	राजस्व ४५,०७,०७,६४,००० पूंजी १,०१,३७,०५,०००	७७,८४,००० ०	४५,०७,८५,४८,००० १,०१,३७,०५,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ४३,६७,४१,००० पूंजी १,०२,३०,०००	५,०१,००० ०	४३,७२,४२,००० १,०२,३०,०००
०५.	जेल	राजस्व २,२९,७७,९३,०००	५०,०००	२,२९,७८,४३,०००
०६.	वित्त	राजस्व ६५,७३,७९,३१,००० पूंजी १,७०,८०,०१,०००	१४,७८,२५,००० ०	६५,८८,५७,५६,००० १,७०,८०,०१,०००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व २५,४५,१९,४१,०००	२१,५०,०००	२५,४५,४०,९१,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व १२,४३,४४,७८,००० पूंजी २१,६०,००,०००	६,६४,००,००० ०	१२,५०,०८,७८,००० २१,६०,००,०००
०९.	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व ६६,३८,४२,००० पूंजी २,००,०१,०००	१,००,००० ०	६६,३९,४२,००० २,००,०१,०००
१०.	वन	राजस्व २१,२३,३६,००,००० पूंजी ८०,००,००,०००	७५,७०,००,००० ०	२१,९९,०६,००,००० ८०,००,००,०००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व ६,१७,४९,४४,००० पूंजी ४,१६,७०,४४,०००	७,०२,००० १०,००,०००	६,१७,५६,४६,००० ४,१६,८०,४४,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व ३७,०३,७३,७५,००० पूंजी ३०,६१,१८,०५,०००	१,७०,५०,००,००० ०	३८,७४,२३,७५,००० ३०,६१,१८,०५,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व २३,७७,५५,७१,०००	२०,००,०००	२३,७७,७५,७१,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
१४.	पशुपालन	राजस्व पूँजी	६,८२,३९,६२,००० १५,७०,००,०००	३,३०,००० ०	६,८२,४२,९२,००० १५,७०,००,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोगना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व पूँजी	१७,२७,३६,४८,००० ३१,६५,००,०००	० ०	१७,२७,३६,४८,००० ३१,६५,००,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व पूँजी	६९,२०,६७,००० ३४,९८,०००	३,००,००० ०	६९,२३,६७,००० ३४,९८,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व पूँजी	४,६६,४८,६४,००० २,४५,९१,६१,०००	१,५०,००० ०	४,६६,५०,१४,००० २,४५,९१,६१,०००
१८.	श्रम	राजस्व	१,४६,१०,२१,०००	२,००,०००	१,४६,१२,२१,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व पूँजी	४०,१४,९६,८४,००० ९५,२५,०१,०००	६१,००,००० ०	४०,१५,५७,८४,००० ९५,२५,०१,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व पूँजी	४,८७,६४,४२,००० ६,६३,९२,०३,०००	१,००,००,००० ०	४,८८,६४,४२,००० ६,६३,९२,०३,०००
२१.	आवास एवं पर्यावरण	राजस्व पूँजी	१,७१,६५,४७,००० ६०,१३,०३,०००	१,००,००० ३०,००,०००	१,७१,६६,४७,००० ६०,४३,०३,०००
२२.	नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	राजस्व पूँजी	३,६१,३६,९७,००० ८,२५,७२,०००	० ०	३,६१,३६,९७,००० ८,२५,७२,०००
२३.	जल संसाधन	राजस्व पूँजी	८,७२,५७,५८,००० १२,८०,१३,५२,०००	१०,००,००० १,००,००,०००	८,७२,६७,५८,००० १२,८१,१३,५२,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	११,५१,२९,४४,०००	२,००,००,०००	११,५३,२९,४४,०००
	पूंजी	१६,३२,६१,००,०००	३६,००,००,०००	१६,६८,६१,००,०००
२५. खनिज साधन	राजस्व	३६,९०,४५,०००	४,००,०५,००,०००	४,३६,९५,४५,०००
	पूंजी	१०,००,०००	०	१०,००,०००
२६. संस्कृति	राजस्व	१,३५,८९,७१,०००	०	१,३५,८९,७१,०००
	पूंजी	१,१५,०८,०००	०	१,१५,०८,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	६४,४४,४०,९१,०००	२,९०,०००	६४,४४,४३,८१,०००
	पूंजी	६३,२०,७८,०००	०	६३,२०,७८,०००
२८. राज्य विधान मंडल	राजस्व	६७,६६,४३,०००	४०,६४,०००	६८,०७,०७,०००
	पूंजी	०	०	०
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१२,४८,६९,४३,०००	८८,७४,१०,०००	१३,३७,४३,५३,०००
	पूंजी	५०,००,०००	०	५०,००,०००
३०. ग्रामीण विकास	राजस्व	६,९७,३२,०५,०००	७,००,०००	६,९७,३९,०५,०००
	पूंजी	१४,७१,५५,००,०००	०	१४,७१,५५,००,०००
३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	२,६०,०९,०३,०००	०	२,६०,०९,०३,०००
	पूंजी	०	०	०
३२. जनसंपर्क	राजस्व	२,३३,२०,४५,०००	०	२,३३,२०,४५,०००
	पूंजी	०	०	०
३३. आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१६,७३,७३,४५,०००	१५,००,०००	१६,७३,८८,४५,०००
	पूंजी	०	०	०
३४. सामाजिक न्याय	राजस्व	२,२३,९७,७६,०००	३,००,०००	२,२४,००,७६,०००
	पूंजी	०	०	०
३५. पुनर्वास	राजस्व	७२,०७,०००	५०,०००	७२,५७,०००
	पूंजी	०	०	०
३६. परिवहन	राजस्व	१,२८,०४,०१,०००	४,००,०००	१,२८,०८,०१,०००
	पूंजी	८,५०,०१,०००	०	८,५०,०१,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३७.	पर्यटन	राजस्व	८१,०५,८९,०००	०	८१,०५,८९,०००
		पूंजी	८१,००,०१,०००	०	८१,००,०१,०००
३८.	आयुष	राजस्व	४,६०,५६,४६,०००	१०,००,०००	४,६०,६६,४६,०००
		पूंजी	२०,३५,००,०००	०	२०,३५,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२०,२४,३५,२१,०००	१,६०,०००	२०,२४,३६,८१,०००
		पूंजी	४२,९०,००,०००	०	४२,९०,००,०००
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट	राजस्व	११,७७,२१,०००	८०,०००	११,७८,०१,०००
		पूंजी	१,१८,१२,००,०००	०	१,१८,१२,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	५५,३४,८६,२३,०००	०	५५,३४,८६,२३,०००
		पूंजी	२८,४८,०१,२७,०००	१५,००,०००	२८,४८,१६,२७,०००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	५,२०,८८,००,०००	०	५,२०,८८,००,०००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	८४,४२,५६,०००	०	८४,४२,५६,०००
		पूंजी	१७,००,०१,०००	०	१७,००,०१,०००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	१२,०९,०७,१०,०००	५२,००,०००	१२,०९,५९,१०,०००
		पूंजी	४०,०१,०२,०००	०	४०,०१,०२,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	१,३३,३२,५०,०००	०	१,३३,३२,५०,०००
		पूंजी	४,६९,६२,७६,०००	१०,००,०००	४,६९,७२,७६,०००
४६.	विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व	२५,७२,००,०००	०	२५,७२,००,०००
		पूंजी	४,७५,००,०००	०	४,७५,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
४७. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	४,६२,३०,७१,०००	०	४,६२,३०,७१,०००
	पूंजी	४३,४०,००,०००	०	४३,४०,००,०००
४८. नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	२८,५४,८८,०००	०	२८,५४,८८,०००
	पूंजी	१२,५१,२९,८०,०००	१०,००,०००	१२,५१,३९,८०,०००
४९. अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	राजस्व	९५,३०,८८,०००	१,०००	९५,३०,८९,०००
५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	४,१४,५३,२६,०००	६,००,०००	४,१४,५९,२६,०००
५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	९८,०४,०८,०००	३०,०००	९८,०४,३८,०००
५२. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३१,१६,७१,६४,०००	०	३१,१६,७१,६४,०००
	पूंजी	४४,४५,००,०००	०	४४,४५,००,०००
५३. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	२,६५,५०,१०,०००	०	२,६५,५०,१०,०००
	पूंजी	२०,००,०००	०	२०,००,०००
५४. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	१,१३,५०,०१,०००	०	१,१३,५०,०१,०००
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	२३,११,५९,०३,०००	१५,००,०००	२३,११,७४,०३,०००
	पूंजी	२,७८,२९,५८,०००	०	२,७८,२९,५८,०००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
५६. ग्रामोद्योग	राजस्व	१,९२,२४,४१,०००	०
	पूंजी	६,६४,५०,०००	०
५७. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	३,११,९६,२६,०००	०
५८. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	३५,६७,०४,९९,०००	०
	पूंजी	२,५०,००,०००	०
५९. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	३१,९०,००,०००	०
६०. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	१८,४८,००,०००	०
	पूंजी	२,१३,६०,२२,०००	०
६१. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	१,४३,५६,०२,०००	०
	पूंजी	३,६९,२०,८६,०००	०
६२. पंचायत	राजस्व	१,७१,१३,६३,०००	१,८०,०००
६३. अल्प संख्यक कल्याण	राजस्व	६८,२०,७१,०००	०
६४. अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	३६,०६,४४,९४,०००	०
	पूंजी	२१,९८,११,६१,०००	०
६५. विमानन	राजस्व	२१,५१,३१,०००	०
	पूंजी	२,०००	०



(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व पूंजी	७,५७,४४,०५,००० ३,८५,०१,०००	२०,००० ०	७,५७,४४,२५,००० ३,८५,०१,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य—भवन	राजस्व पूंजी	४,६४,५८,९३,००० १,७०,९४,०५,०००	५०,००,००० ०	४,६५,०८,९३,००० १,७०,९४,०५,०००
६८.	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	४६,००,५९,०००	०	४६,००,५९,०००
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व पूंजी	१,४५,७८,७५,००० ३४,४०,००,०००	० ०	१,४५,७८,७५,००० ३४,४०,००,०००
७०.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	१२,५५,००,०००	०	१२,५५,००,०००
७१.	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)	राजस्व	५,५०,००,०००	०	५,५०,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व पूंजी	८६,७२,९७,००० ३,९१,२१,०००	० ०	८६,७२,९७,००० ३,९१,२१,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व पूंजी	४,८३,४१,१५,००० ५४,८५,०२,०००	१,०५,००,००० ०	४,८४,४६,१५,००० ५४,८५,०२,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व पूंजी	१,२६,४१,१२,३५,००० ५०,००,०००	० ०	१,२६,४१,१२,३५,००० ५०,००,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व पूंजी	५७,२४,०७,११,००० २५,००,००,०००	२,३०,०५,००,००० ०	५९,५४,१२,११,००० २५,००,००,०००
७६.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व पूंजी	६४,५१,७४,००० ३०,००,०००	० ०	६४,५१,७४,००० ३०,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
७७. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	२३,७०,६४,२४,०००	६०,००,०००	२३,७१,२४,२४,०००
	पूँजी	१२,५०,००,०००	०	१२,५०,००,०००
७८. सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	१,४०,००,००,०००	०	१,४०,००,००,०००
योग :	राजस्व	९,३१,४२,३७,५७,०००	७९,५९,८२,३६,०००	१०,११,०२,१९,९३,०००
	पूँजी	१,८६,८४,०५,९३,०००	९२,१४,७४,९६,०००	२,७८,९८,८०,८९,०००
वृहद योग :		११,१८,२६,४३,५०,०००	१,७१,७४,५७,३२,०००	१२,९०,०१,००,८२,०००

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2014

क्र. 4334-198-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -6) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.11 OF 2014

**THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 6) ACT, 2014.**

[Received the assent of the Governor on the 28th July, 2014 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th July, 2014.]

**An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2014-2015.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Fifth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 6) Act, 2014.

Issue of Rs. 12,90,01,00,82,000 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2014-2015.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate inclusive of the sums specified in column (3) of the Schedule to the Madhya Pradesh Appropriation (Vote on Account) Act, 2014 (No. of 2014) to the sums of Rs. One Lakhs Twentynine Thousand One Crore Eightytwo Thousand towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2014-2015 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
..	Charged Appropriation- Interest Payments and Servicing of Debt.	Revenue	0	<b>69,29,47,57,000</b>	69,29,47,57,000
..	Charged Appropriation- Public Debt	Capital	0	<b>91,76,99,96,900</b>	91,76,99,96,000
01.	General Administration Lok Seva Prabandhan	Revenue	5,44,18,30,000	<b>34,87,41,000</b>	5,79,05,71,000
		Capital	61,87,09,000	<b>0</b>	61,87,09,000
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	Revenue	30,86,74,000	<b>10,61,000</b>	30,97,35,000
03.	Police	Revenue	45,07,07,64,000	<b>77,84,000</b>	45,07,85,48,000
		Capital	1,01,37,05,000	<b>0</b>	1,01,37,05,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department	Revenue	43,67,41,000	<b>5,01,000</b>	43,72,42,000
		Capital	1,02,30,000	<b>0</b>	1,02,30,000
05.	Jail	Revenue	2,29,77,93,000	<b>50,000</b>	2,29,78,43,000
06.	Finance	Revenue	65,73,79,31,000	<b>14,78,25,000</b>	65,88,57,56,000
		Capital	1,70,80,01,000	<b>0</b>	1,70,80,01,000
07.	Commercial Tax	Revenue	25,45,19,41,000	<b>21,50,000</b>	25,45,40,91,000
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	12,43,44,78,000	<b>6,64,00,000</b>	12,50,08,78,000
		Capital	21,60,00,000	<b>0</b>	21,60,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
09.	Expenditure pertaining to Revenue Department			
	Revenue	66,38,42,000	<b>1,00,000</b>	66,39,42,000
	Capital	2,00,01,000	<b>0</b>	2,00,01,000
10.	Forest			
	Revenue	21,23,36,00,000	<b>75,70,00,000</b>	21,99,06,00,000
	Capital	80,00,00,000	<b>0</b>	80,00,00,000
11.	Commerce, Industry and Employment			
	Revenue	6,17,49,44,000	<b>7,02,000</b>	6,17,56,46,000
	Capital	4,16,70,44,000	<b>10,00,000</b>	4,16,80,44,000
12.	Energy			
	Revenue	37,03,73,75,000	<b>1,70,50,00,000</b>	38,74,23,75,000
	Capital	30,61,18,05,000	<b>0</b>	30,61,18,05,000
13.	Formers Welfare and Agriculture Development			
	Revenue	23,77,55,71,000	<b>20,00,000</b>	23,77,75,71,000
14.	Animal Husbandry			
	Revenue	6,82,39,62,000	<b>3,30,000</b>	6,82,42,92,000
	Capital	15,70,00,000	<b>0</b>	15,70,00,000
15.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions under Schedule Castes Sub-Plan			
	Revenue	17,27,36,48,000	<b>0</b>	17,27,36,48,000
	Capital	31,65,00,000	<b>0</b>	31,65,00,000
16.	Fisheries			
	Revenue	69,20,67,000	<b>3,00,000</b>	69,23,67,000
	Capital	34,98,000	<b>0</b>	34,98,000
17.	Co-operation			
	Revenue	4,66,48,64,000	<b>1,50,000</b>	4,66,50,14,000
	Capital	2,45,91,61,000	<b>0</b>	2,45,91,61,000
18.	Labour			
	Revenue	1,46,10,21,000	<b>2,00,000</b>	1,46,12,21,000
19.	Public Health and Family Welfare			
	Revenue	40,14,96,84,000	<b>61,00,000</b>	40,15,57,84,000
	Capital	95,25,01,000	<b>0</b>	95,25,01,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
20.	Public Health Engineering	Revenue	4,87,64,42,000	<b>1,00,00,000</b>	4,88,64,42,000
		Capital	6,63,92,03,000	<b>0</b>	6,63,92,03,000
21.	Housing and Environment	Revenue	1,71,65,47,000	<b>1,00,000</b>	1,71,66,47,000
		Capital	60,13,03,000	<b>30,00,000</b>	60,43,03,000
22.	Urban Administration and Development —Urban Bodies	Revenue	3,61,36,97,000	<b>0</b>	3,61,36,97,000
		Capital	8,25,72,000	<b>0</b>	8,25,72,000
23.	Water Resources Department	Revenue	8,72,57,58,000	<b>10,00,000</b>	8,72,67,58,000
		Capital	12,80,13,52,000	<b>1,00,00,000</b>	12,81,13,52,000
24.	Public Works—Roads and Bridges	Revenue	11,51,29,44,000	<b>2,00,00,000</b>	11,53,29,44,000
		Capital	16,32,61,00,000	<b>36,00,00,000</b>	16,68,61,00,000
25.	Mineral Resources	Revenue	36,90,45,000	<b>4,00,05,00,000</b>	4,36,95,45,000
		Capital	10,00,000	<b>0</b>	10,00,000
26.	Culture	Revenue	1,35,89,71,000	<b>0</b>	1,35,89,71,000
		Capital	1,15,08,000	<b>0</b>	1,15,08,000
27.	School Education (Primary Education)	Revenue	64,44,40,91,000	<b>2,90,000</b>	64,44,43,81,000
		Capital	63,20,78,000	<b>0</b>	63,20,78,000
28.	State Legislature	Revenue	67,66,43,000	<b>40,64,000</b>	68,07,07,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	12,48,69,43,000	<b>88,74,10,000</b>	13,37,43,53,000
		Capital	50,00,000	<b>0</b>	50,00,000
30.	Rural Development	Revenue	6,97,32,05,000	<b>7,00,000</b>	6,97,39,05,000
		Capital	14,71,55,00,000	<b>0</b>	14,71,55,00,000
31.	Planning, Economics and Statistics	Revenue	2,60,09,03,000	<b>0</b>	2,60,09,03,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
32.	Public Relations	Revenue	2,33,20,45,000	0	2,33,20,45,000
33.	Tribal Welfare	Revenue	16,73,73,45,000	15,00,000	16,73,88,45,000
34.	Social Justice	Revenue	2,23,97,76,000	3,00,000	2,24,00,76,000
35.	Rehabilitation	Revenue	72,07,000	50,000	72,57,000
36.	Transport	Revenue	1,28,04,01,000	4,00,000	1,28,08,01,000
		Capital	8,50,01,000	0	8,50,01,000
37.	Tourism	Revenue	81,05,89,000	0	81,05,89,000
		Capital	81,00,01,000	0	81,00,01,000
38.	Ayoush	Revenue	4,60,56,46,000	10,00,000	4,60,66,46,000
		Capital	20,35,00,000	0	20,35,00,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	20,24,35,21,000	1,60,000	20,24,36,81,000
		Capital	42,90,00,000	0	42,90,00,000
40.	Expenditure pertaining to Water Resources Department-Command Area Development	Revenue	11,77,21,000	80,000	11,78,01,000
		Capital	1,18,12,00,000	0	1,18,12,00,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan	Revenue	55,34,86,23,000	0	55,34,86,23,000
		Capital	28,48,01,27,000	15,00,000	28,48,16,27,000
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Roads and Bridges	Capital	5,20,88,00,000	0	5,20,88,00,000
43.	Sports and Youth Welfare	Revenue	84,42,56,000	0	84,42,56,000
		Capital	17,00,01,000	0	17,00,01,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
44.	Higher Education			
	Revenue	12,09,07,10,000	<b>52,00,000</b>	12,09,59,10,000
	Capital	40,01,02,000	<b>0</b>	40,01,02,000
45.	Minor Irrigation Works			
	Revenue	1,33,32,50,000	<b>0</b>	1,33,32,50,000
	Capital	4,69,62,76,000	<b>10,00,000</b>	4,69,72,76,000
46.	Science and Technology			
	Revenue	25,72,00,000	<b>0</b>	25,72,00,000
	Capital	4,75,00,000	<b>0</b>	4,75,00,000
47.	Technical Education and Skill Development			
	Revenue	4,62,30,71,000	<b>0</b>	4,62,30,71,000
	Capital	43,40,00,000	<b>0</b>	43,40,00,000
48.	Narmada Valley Development			
	Revenue	28,54,88,000	<b>0</b>	28,54,88,000
	Capital	12,51,29,80,000	<b>10,00,000</b>	12,51,39,80,000
49.	Scheduled Caste Welfare & Vimukta, Ghumakkad evam Ardha Ghumakkad caste Welfare			
	Revenue	95,30,88,000	<b>1,000</b>	95,30,89,000
50.	Horticulture and Food Processing			
	Revenue	4,14,53,26,000	<b>6,00,000</b>	4,14,59,26,000
51.	Religious Trusts and Endowments			
	Revenue	98,04,08,000	<b>30,000</b>	98,04,38,000
52.	Financial Assistance to Tribal Area Sub-plan-Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	31,16,71,64,000	<b>0</b>	31,16,71,64,000
	Capital	44,45,00,000	<b>0</b>	44,45,00,000
53.	Financial Assistance to Urban- bodies under Schedule Castes Sub-Plan			
	Revenue	2,65,50,10,000	<b>0</b>	2,65,50,10,000
	Capital	20,00,000	<b>0</b>	20,00,000
54.	Agricultural Research and Education			
	Revenue	1,13,50,01,000	<b>00</b>	1,13,50,01,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
55. Women and Child Development	Revenue	23,11,59,03,000	<b>15,00,000</b>	23,11,74,03,000
	Capital	2,78,29,58,000	<b>0</b>	2,78,29,58,000
56. Rural Industry	Revenue	1,92,24,41,000	<b>0</b>	1,92,24,41,000
	Capital	6,64,50,000	<b>0</b>	6,64,50,000
57. Externally Aided Projects pertaining to Water Resources Department	Capital	3,11,96,26,000	<b>0</b>	3,11,96,26,000
58. Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity	Revenue	35,67,04,99,000	<b>0</b>	35,67,04,99,000
	Capital	2,50,00,000	<b>0</b>	2,50,00,000
59. Externally aided Projects pertaining to Rural Development Department	Revenue	31,90,00,000	<b>0</b>	31,90,00,000
60. Expenditure pertaining to District Plan Schemes	Revenue	18,48,00,000	<b>0</b>	18,48,00,000
	Capital	2,13,60,22,000	<b>0</b>	2,13,60,22,000
61. Expenditure pertaining to Bundelkhan package	Revenue	1,43,56,02,000	<b>0</b>	1,43,56,02,000
	Capital	3,69,20,86,000	<b>0</b>	3,69,20,86,000
62. Panchayat	Revenue	1,71,13,63,000	<b>1,80,000</b>	1,71,15,43,000
63. Minority Welfare	Revenue	68,20,71,000	<b>0</b>	68,20,71,000
64. Scheduled Castes Sub-Plan	Revenue	36,06,44,94,000	<b>0</b>	36,06,44,94,000
	Capital	21,98,11,61,000	<b>0</b>	21,98,11,61,000
65. Aviation	Revenue	21,51,31,000	<b>0</b>	21,51,31,000
	Capital	2,000	<b>0</b>	2,000



(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
66.	Welfare of Backward Classes			
	Revenue	7,57,44,05,000	<b>20,000</b>	7,57,44,25,000
	Capital	3,85,01,000	<b>0</b>	3,85,01,000
67.	Public Works-Buildings			
	Revenue	4,64,58,93,000	<b>50,00,000</b>	4,65,08,93,000
	Capital	1,70,94,05,000	<b>0</b>	1,70,94,05,000
68.	Financial assistance to Tribal Area Sub-Plan-Urban Bodies			
	Revenue	46,00,59,000	<b>0</b>	46,00,59,000
69.	Information Technology			
	Revenue	1,45,78,75,000	<b>0</b>	1,45,78,75,000
	Capital	34,40,00,000	<b>0</b>	34,40,00,000
70.	Externally Aided Projects pertaining to Technical Education and Training Department			
	Revenue	12,55,00,000	<b>0</b>	12,55,00,000
71.	Biodiversity & Biotechnology			
	Revenue	5,50,00,000	<b>0</b>	5,50,00,000
72.	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation			
	Revenue	86,72,97,000	<b>0</b>	86,72,97,000
	Capital	3,91,21,000	<b>0</b>	3,91,21,000
73.	Medical Education Department			
	Revenue	4,83,41,15,000	<b>1,05,00,000</b>	4,84,46,15,000
	Capital	54,85,02,000	<b>0</b>	54,85,02,000
74.	Financial assistance to Three Tier Panchayati Raj Institutions			
	Revenue	1,26,41,12,35,000	<b>0</b>	1,26,41,12,35,000
	Capital	50,00,000	<b>0</b>	50,00,000
75.	Financial assistance to Urban Bodies			
	Revenue	57,24,07,11,000	<b>2,30,05,00,000</b>	59,54,12,11,000
	Capital	25,00,00,000	<b>0</b>	25,00,00,000
76.	New and Renewable Energy Sources			
	Revenue	64,51,74,000	<b>0</b>	64,51,74,000
	Capital	30,00,000	<b>0</b>	30,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
77.	Other Expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)			
	Revenue	23,70,64,24,000	<b>60,00,000</b>	23,71,24,24,000
	Capital	12,50,00,000	<b>0</b>	12,50,00,000
78.	Expenditure pertaining to Shimhast, 2016			
	Revenue	1,40,00,00,000	<b>0</b>	1,40,00,00,000
	Total Revenue . .	9,31,42,37,57,000	<b>79,59,82,36,000</b>	10,11,02,19,93,000
	Total Capital . .	1,86,84,05,93,000	<b>92,14,74,96,000</b>	2,78,98,80,89,000
	<b>Grand Total . .</b>	<b>11,18,26,43,50,000</b>	<b>1,71,74,57,32,000</b>	<b>12,90,01,00,82,000</b>